


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 1976/माघ 7, 1897

No. 33]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 1976/MAGHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th January 1976

G.S.R. 41(E).—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 208(E) dated the 16th May, 1975, the Central Government hereby appoints the 1st February, 1976 as the date on which the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), and the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) shall come into force in the State of Sikkim.

[No. 11011/1/75-F.I. (i)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 41 (अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 208 (ई) तारीख 16 मई, 1975 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1 फरवरी, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको विदेशियों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1939, (1939 का 16) और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होंगे।

[सं० 11011/1/75-एफ०/आई० (i)]

G.S.R. 42(E).—The following draft of a notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), the Central Government hereby directs that the Registration of Foreigners Rules, 1939, shall extend to, and come into force, in the State of Sikkim with effect on and from the 1st March, 1976.

[No. 11011/1/75-F.I. (ii)]

सा० का० नि० 42 (अ).—उन अधिसूचना का जिसे केन्द्रीय सरकार विदेशियों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने की प्रस्तावना करती है, निम्नलिखित प्राकृत्य, उक्त धारा की अपेक्षाानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उसे प्रभावित होना सम्भाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्राकृत्य पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. उन आदेशों या सुझावों पर, जो उक्त प्राकृत्य के बारे में किसी व्यक्ति ने इस प्रकार विनिकटित अवधि की समाप्ति के पहले प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्राकृत्य अधिसूचना

विदेशियों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निदेश करती है कि विदेशियों का रजिस्ट्रेशन नियम, 1939 1 मार्च, 1976 को और उसमें सिक्किम राज्य पर विस्तारित होंगे और उसमें प्रवृत्त होंगे।

[सं० 11011/1/75-एफ० आई० (ii)]

ORDERS

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby directs that the Foreigners Order, 1948, and the Foreigners (Registration on Chinese Nationals) Order, 1962, shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st February, 1976.

[No. 11011/1/75-F.I. (iii)]

आदेश

सा० का० नि० 43 (अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि विदेशियों विषयक आदेश, 1948 और विदेशी (चीनी राष्ट्रियों पर निर्बन्धन) आदेश, 1962 1 फरवरी, 1976 को और उसमें सिक्किम राज्य पर विस्तारित और उसमें प्रवृत्त होंगे।

[सं० 11011/1/75-एफ० आई० (iii)]

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby directs that the Foreigners (Exemption) Order, 1957, shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st February, 1976.

[No. 11011/1/75-F.I. (iv)]

सा० का० नि० 44 (अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि विदेशी (छूट) आदेश, 1957 1 फरवरी, 1976 को और उससे सिक्किम राज्य पर विस्तारित होगा और उसमें प्रवृत्त होगा।

[स० 11011/1/75-एफ० आई० (iv)]

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby directs that the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st February, 1976 and further directs that in sub-paragraph (3) of paragraph 1 of the said Order, the words "subjects of Sikkim" shall be omitted.

[No. 11011/1/75-F.I. (v)]

सा० का० नि० 45 (अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 1 फरवरी, 1976 को और उससे सिक्किम राज्य पर विस्तारित होगा और उसमें प्रवृत्त होगा तथा आगे निदेश करती है कि उक्त आदेश के पैरा 1 में उप-पैरा (3) में, "सिक्किम के राजाज" शब्दों को लोप किया जाएगा।

[संख्या 11011/1/75-एफ० आई० (v)]

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 4 and 8 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby directs that the Foreigners (Internment) Order, 1962, shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st February, 1976.

[No. 11011/1/75-F.I. (vi)]

सा० का० नि० 46 (अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3, 4 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि विदेशी (नजरबन्दी) आदेश, 1962 1 फरवरी, 1976 को और उससे सिक्किम राज्य पर विस्तारित होगा और उसमें प्रवृत्त होगा।

[सं० 11011/1/75-एफ० आई० (vi)]

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby directs that the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963 shall extend to, and come into force, in the State of Sikkim with effect on and from the 1st February, 1976, and further directs that in clause (a) of the first proviso to paragraph 3 of the said Order, the words "or Sikkim" shall be omitted.

[No. 11011/1/75-F.I. (vii)]

सा० का० नि० 47 (घ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि विदेशी (निर्बन्धित क्षेत्र) आदेश, 1963 1 फरवरी, 1976 को और उससे सिक्किम राज्य पर विस्तारित होगा और उसमें प्रवृत्त होगा, तथा आगे निदेश करती है कि उक्त आदेश के पैरा, 3 के प्रथम परःसुक के खण्ड (क) में, "या सिक्किम" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं० 11011/1/75-एफ० आई० (vii)]

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 3A of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby directs that the Foreigners (Restrictions on Residence) Order, 1968, shall extend to, and come into force, in the State of Sikkim with effect on and from the 1st February, 1976.

[No. 11011/1/75-F.I. (viii)]

S. S. SIDHU, Jt. Secy.

स० क० नि० 48 (अ).— विदेशियो विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 और 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि विदेशी (निवास पर निर्बन्धन) आदेश, 1968 1 फरवर, 1976 को और उससे सिक्किम राज्य पर विस्तारित होगा और उसमें प्रवृत्त होगा।

[स० 11011/1/75-एफ० आई० (viii)]

एस० एस० सिन्हा, संयुक्त सचिव।